

करके बिना से वृद्ध (सृष्टिम्) शास्त्रों को जानने वाले विद्वान् को (भ्रामि) धारण करता हूँ । वैसे तुम लोग भी किया करो ॥ ३ ॥

भावार्थः—इस मंत्र में वाचकलु०—जैसे विद्वानों से मनुष्यों के लिये सब से उत्तम उपमा रहित यत्न किया जाता है वैसे इन के सन्कार के वास्ते सब मनुष्य भी प्रयत्न किया करें ॥ ३ ॥

पुनः स कीदृशइत्यु० ॥

फिर वह कैसा है यह त्रि० ॥

अस्माइदु स्तोमं सं हिनोमि रथं न तष्टेव
तत्सिनाय । गिरश्च गिर्वाहसे सुवृक्तीन्द्राय
विश्वमिन्वं मेधिराय ॥ ४ ॥

अस्मे । इत् । उमृइति । स्तोमम् । सम् । हिनो-
मि । रथम् । न । तटाऽइव । तत्सिनाय । गिरः ।
च । गिर्वाहसे । सुवृक्ति । इन्द्राय । विश्वम्ऽइन्वम् ।
मेधिराय ॥ ४ ॥

पदार्थः—(अस्मै) सभ्याय (इत्) अपि (उ) वितर्क (स्तो-
मम्) स्तुतिम् (सम्) सम्यगर्थ (हिनोमि) वर्धयामि (रथम्) यानस-
मूहम् (न) इव (तष्टेव) यथा तनूकर्त्ता शिल्पी (तत्सिनाय) तस्य
यानसमूहस्य बन्धनाय (गिरः) वाचः (च) समुच्चये (गिर्वाहसे)
या गिरा विश्वावाधो वहति तस्मै (सुवृक्ति) सुष्टु वृजते त्यजन्ति
दोषान् यस्मात्तत् (इन्द्राय) विश्वावृष्टिकारकाय (विश्वमिन्वम्)
यो विश्वं सर्वं विज्ञानमिन्वति व्याप्नोति तत् । अत्र विभक्त्यलुक्
(मेधिराय) धीमते ॥ ४ ॥

अन्वयः—हे मनुष्या यथाऽहं मेधिराय गिर्वाहसेऽस्माइन्द्रा-
येदु रथं न यानसमूहमिव तत्सिनाय तष्टेव विश्वमिन्वं सुवृक्ति
स्तोमं गिरश्च संहिनोमि तथा घृधर्माप प्रयतध्वम् ॥ ४ ॥

भावार्थः—अत्रोपमालं०—यथा रथकारी दृढं रथं चालनाय बन्ध-
नैः सह यंत्रकलाः सम्यग्रचयित्वा स्वप्रयोजनानि साधोति सुखेन
गमनागमने कृत्वा मोदते तथैव मनुष्यो विष्ठांसमाश्रित्य तत्सञ्चि-
योगेन विद्या गृहीत्वा सुखेन धर्मार्थकाममोक्षान् साधयित्वा
सनतमानन्देत् ॥ ४ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जैसे मैं (मेधिराय) अच्छे प्रकार जानने (गिर्वा-
हसे) विद्या युक्त वाणियों को प्राप्त कराने वाले (अस्मै) इम (इन्द्राय) वि-
द्या की वृष्टि करने वाले विद्वान् (इत्) ही के लिये (उ) नर्क पूर्वक (रथम्)
यान समूह के (न) समान (तत्सिनाय) यान समूह के बन्धन के लिये (त-
ष्टेव) तीक्ष्ण करने वाले कारीगर के तुल्य (विश्वमिन्वम्) सब विज्ञान को प्रा-
प्त कराने (सुवृक्ति) जिस से सब दोषों को छाड़ने हैं उस (स्तोमम्) शा-
स्त्रों के अभ्यास युक्त स्तुति (च) और (गिरः) वेद वाणियों को (संहिनो-
मि) सम्यक् बढ़ाता हूँ वैसे तुम भी प्रयत्न किया करो ॥ ४ ॥

भावार्थः—इम मन्त्र में वाचरत्न०—जैसे रथ के बनाने वाला दृढ रथ के
बनाने के वास्ते उत्तम बन्धनों के सहित यंत्रकलाओं को अच्छे प्रकार रच कर
अपने प्रयोजनों को सिद्ध करता और सुख पूर्वक जाना आना करके आनन्दित
होता है वैसे ही मनुष्य विद्वान् का आश्रय लेकर उस के सम्बन्ध से धर्म अर्थ
काम और मोक्ष को सिद्ध करके सदा आनन्द में रहें ॥ ८ ॥

पुनः स कीदृशइत्यु० ॥

फिर वह कैसा है इस वि० ॥

अस्माइदु सप्तमिव श्रवस्येन्द्रायार्कं

जुह्वाःसमञ्जे । वीरं दानौकसं वन्दध्यै पुरा गूर्त्तश्रवसं दर्माणम् ॥ ५ ॥ २७ ॥

अस्मै । इत् । ऊम्इति । सप्तिम्ऽइव । श्रवस्या ।
इन्द्राय । अर्कम् । जुहा । सम् । अञ्जे । वीरम् ।
दानऽत्रौकसम् । वन्दध्यै । पुराम् । गूर्त्तऽश्रवसम् ।
दर्माणम् ॥ ५ ॥ २७ ॥

पदार्थः—(अस्मै) सभ्याय विदुषे (इत्) एव (उ) वितर्के
(सप्तिमिष) यथा वेगवानश्वः (श्रवस्या) आत्मनः श्रवणेच्छया
(इन्द्राय) परमैश्वर्यप्रापकाय (अर्कम्) अर्च्यन्ते येन तम् (जुहा)
जुहोति गृह्णाति ददाति वा यथा तथा (सम्) सम्यगर्थे (अञ्जे)
कामये । अत्र विकरणलुक् व्यत्ययेनात्मनेपदं च (वीरम्) विद्याशौ-
र्यगुणयुक्तम् (दानौकसम्) दानमोकश्च यस्य तम् (वन्दध्यै) अ-
भिषंदितुं स्तोतुम् (पुराम्) शत्रुनगराणाम् (गूर्त्तश्रवसम्) गूर्त्त-
निगलितं श्रवः शास्त्रश्रवणं येन तम् (दर्माणम्) विदारयितार-
म् ॥ ५ ॥

अन्वयः—हे मनुष्या यथाऽहं श्रवस्या जुह्वास्माइन्द्रायेदु वन्दध्यै
सप्तिमिष गूर्त्तश्रवसं पुरां दर्माणं दानौकसमर्कं वीरमित् समञ्जे स-
म्यक्कामये तथा तं यूयमपि कामयध्वम् ॥ ५ ॥

पदार्थः—अत्रोपमालं०—यथा मनुष्या रथेऽश्वान् योजयि-
त्वा तदुपरि स्थित्वा गमनाऽऽगमनाभ्यां कार्याणि साध्नुवन्ति तथा
वर्त्तमानैर्विद्वद्भिर्वीरैः सह सद्भ्यः सर्वाणि कार्याणि मनुष्यैः साध-
नीयानि ॥ ५ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जैसे मैं (श्रवस्या) अपने करने की इच्छा (जुहा)

विद्यार्थों के लेने देने वाली क्रियाओं से (अस्मै : इस (इन्द्राय) परमैश्वर्य प्राप्त करने वाले (इत्) मभाध्यत्त का ही (उ) विशेष तर्क के साथ (वं-दध्यै) स्तुति कराने के लिये (सप्तियिव) बेग वाले घोड़े के समान (गर्त्त श्रवसम्) जिसने सब शास्त्रों के श्रवणों को ग्रहण किया है (पुराम्) शत्रुओं के नगरों के (दर्षणम्) विदारण करने वा (दानौकसम्) दान वा स्थान युक्त (अर्कम्) सत्कार के हेतु (वीरम्) विद्या शौर्यादि गुण युक्त वीर (इत्) ही को (समञ्जे) अच्छे प्रकार कामना करना हूँ वैसे तुम भी कामना किया करो ॥ ५ ॥

भावार्थः-इस मन्त्र में उपमालं०-जैसे मनुष्य लोग रथ में घोड़ों को जोड़ उस के ऊपर स्थित होकर जाने आने स कार्यों को सिद्ध करने हैं वैसे वर्तमान विद्वान् वीर पुरुषों के सङ्ग से सब कार्यों को मनुष्य लोग सिद्ध करें ॥५॥

पुनः स कीदृश इत्यु० ॥

फिर वह कैसा है इस वि० ॥

अस्माइदु त्वष्टा तक्षद्वज्रं स्वपंस्तमं स्वयं
रणाय । वृत्रस्यं चिद्विदयेन ममै तुजन्नीशान-
स्तुजता क्रियेधाः ॥ ६ ॥

अस्मै । इत् । ऊम्इति । त्वष्टा । तक्षत् । वज्रम् ।
स्वपःस्तमम् । स्वयम् । रणाय । वृत्रस्यं । चित् ।
विदत् । येन । ममै । तुजन् । ईशानः । तुजता । क्रि-
येधाः ॥ ६ ॥

पदार्थः-(अस्मै) उक्ताय (इत्) एव (उ) चित्तकै (त्वष्टा) प्रकाशयिता (तक्षत्) तनूकरोति (वज्रम्) किरणसमूहं प्रहृत्य

(स्वपस्तमम्) अतिशयेन शोभनान्यपांसि कर्माणि यस्मात्तम् (स्व-
र्यम्) स्वः सुखे साधुस्तम् (रणाय) घृद्धाय । रणइति संग्रामना०
निघं० २ । १७ (वृत्रस्य) मेघस्य (चित्) इव (विदत्) प्राप्नुवन्
येन) वज्रेण (मर्म) जीवननिमित्तम् (तुजन्) हिंसन् । अत्र श
पो लुक् (ईशानः) समर्थः (तुजता) छेदकेन वज्रेण (कियेधाः)
यः कियतो धरति सः । अत्र पृषोदरा० इति तस्थानहकारः ॥ ६ ॥

अन्वयः—मनुष्यैर्यस्त्वष्टेशानः कियेधाः स्वयं शत्रून् तुजन् वृ-
त्रस्य मेघस्योपरि वज्रं सर्वाकरणान् क्षिपन् विदत् स्वयं स्वपस्तमं
तक्षत्सूर्याश्चादिवास्यै रणाय मर्म तुजता येन वज्रेण शत्रून् विजयते
सद्दु सभाद्यध्यक्षत्वे योग्यइति वक्ष्यम् ॥ ६ ॥

भावार्थः—अत्रोपमालं० यथा सविता स्वप्रतापेन मेघं छित्वा
भूमौ निपात्य जलं विस्तार्य मन्त्रयति तथा सभाद्यध्यक्षो विद्यावि-
नयादिना शस्त्रास्त्रशिक्षया युद्धेषु कुशलां सेनां संपाद्य शत्रून् जि-
त्वा सर्वान् प्राणिन आनन्दयेत् ॥ ६ ॥

पदार्थः मनुष्यों को उचित है कि जो (वृष्टा) प्रकाश करने (ईशानः)
समर्थ (कियेधाः) कितनों को धारण करने वाला शत्रुओं को (तुजन्) मा-
रता हुआ (वृत्रस्य) मेघ के ऊपर अपने किरणों को छोड़ना (विदत्) प्राप्त
होने हुए सूर्य के समान (स्वयम्) सुख के हेतु (स्वपस्तमम्) अतिशय कर-
के उत्तम कर्मों के उत्पन्न करने वाले (वज्रम्) किरण सारूह को (तत्तव) छ-
दन करते हुए सूर्य के (चित्) समान (अस्मै) इस (रणाय) सङ्ग्राम के
वास्ते जिस (मर्म) जीवन निमित्तस्थान को (तुजता) काटते हुए (येन) जि-
स वज्र से शत्रुओं को जीतता है (इदु) उमी को सभा आदि का अध्यक्ष क-
रना चाहिये ॥ ६ ॥

भावार्थः—इस मंत्र में उपमालंकार है । जैसे सूर्य अपने प्रताप से मेघ
को छिन्न भिन्न कर भूमि में जल को गिरा के सब को सुखी करता है वैसे ही
सभा आदि का अध्यक्ष विद्या विनय वा शस्त्र अस्त्रों के सीखने सिखाने से
युद्धों में कुशल सेना को सिद्ध कर शत्रुओं को जीत कर सब प्राणियों को आ-
नन्दित किया करे ॥ ६ ॥

पतः स कीदृश इत्यु० ॥

फिर वह कैसा है इस वि० ॥

अस्येदुं मातुः सर्वनेषु सद्यो महः पितुं पपि-
वाञ्चार्वन्नां मुषायद्विष्णुः । पचतं सहीयान् वि-
ध्यद्वराहं तिरि अद्रिमस्तां ॥ ७ ॥

अस्य । इत् । उम्इति । मातुः । सर्वनेषु । सद्यः ।
महः । पितुम् । पपिवान् । चारु । अन्नां । मुषायत् ।
विष्णुः । पचतम् । सहीयान् । विध्यत् । वराहम् ।
तिरिः । अद्रिम् । अस्तां ॥ ७ ॥

पदार्थः—(अस्य) सभाध्यक्षस्य (इत्) अपि (उ) वितर्क
(मातुः) परिमाणकर्तुः (सर्वनेषु) ऐश्वर्येषु (सद्यः) समानेऽहनि
(महः) महत् (पितुम्) सुसंस्कृतमन्नम् (पपिवान्) रसान् पीत-
वान् (चारु) सुन्दरम् (अन्नां) अन्नानि (मुषायत्) आत्मनः स्ने-
यमिच्छत् । अत्र घञर्थे कविधानमिति कः प्रत्ययः । ततः सुप आ-
त्मनः क्यच्इति क्यच् । न छन्दस्यपुत्रस्य अ० ७ । ४ । ३५ । इती-
त्थनिषेधः (विष्णुः) सर्वविद्यांगव्यापनशीलः (पचतम्) परिप-
कम् (वराहम्) (सहीयान्) अतिशयेन सोढा (विध्यत्) विध्य-
ति मेघम् (तिरिः) अधोगमने (अद्रिम्) पर्वताकारम् (अस्ता)
प्रक्षेपा ॥ ७ ॥

अन्वयः—योऽस्य मातुः सभाद्यक्षस्य सवनेषु महः पचतं चारु पितुं च पपिवान् सहीयान् वीरोऽन्नास्ता मुषायदिव विष्णुः सूर्योऽद्रिं वराहं तिरो विध्यदिव शत्रून् सद्यो हन्यान् सद्दु सेनाध्यक्षो योग्यो भवति ॥ ७ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—यथा सूर्योऽन्नजलरमान् चोरयन् गोपायन् स्वकिरणैर्मेघं संहत्य प्रकटयन् छित्वा निपात्य विजयते तथैव सेनाध्यक्षस्य सेनाद्यैश्वर्येषु स्थिताः शूर्वाराः पुरुषाः शत्रून् विजयेरन् ॥ ७ ॥

पदार्थः—जो (अस्य) इस (मातुः) शत्रु और अपने वत्त का परिमाण करने वाले सभाध्यक्ष के (सवनेषु) ऐश्वर्यों में (महः) बड़े (पचतम्) परिपक्व (चारु) सुन्दर (पितृम्) संस्कार किये हुए अन्न को (पपिवान्) खाने पीने तथा (सहीयान्) अतिशय करके सहन करने वाला वीर मनुष्य (अन्ना) अन्नों को (अस्ता) प्रक्षेपण करने (मुषायत्) अपने को चोर की इच्छा करते हुए के तुल्य (विष्णुः) सब विद्याओं के अङ्गों में व्यापक (अद्रिम्) पर्वताकार (वराहम्) मेघ को (तिरः) नीचे (विध्यत्) गिराते हुए सूर्य के समान शत्रुओं को (मद्यः) शीघ्र नष्ट करे (इद्) वही मनुष्य सेनाध्यक्ष होने के योग्य होता है ॥ ७ ॥

भावार्थः—इस मंत्र में वाचकलु०—जैसे सूर्य अन्न जल के रसों को चोर के समान हरता वा रक्षा करता हुआ अपने किरणों से मेघ का हनन कर प्रकट करता हुआ छिन्न भिन्न कर अपने विजय को प्राप्त होता है वैसे ही सेना आदि के अध्यक्ष के सेना आदि ऐश्वर्यों में स्थित हुए शूर वीर पुरुष शत्रुओं का पराजय करें ॥ ७ ॥

पुनः स कीदृश इत्यु० ॥

फिर वह कैसा है यह वि० ॥

अस्मा इदु ग्नाश्चिद्देवपत्नीरिन्द्रायार्कमहि

हत्य ऊवुः । परि द्यावापृथिवी जभ्रे उर्वी नास्य
ते महिमानं परिष्टः ॥ ८ ॥

अस्मै । इत् । ऊमूइति । ग्नाः । चित् । देवऽ-
पत्नीः । इन्द्राय । अर्कम् । अहिऽहत्ये । ऊवुरित्पूवुः ।
परि । द्यावापृथिवीइति । जभ्रे । उर्वीइति ।
न । अस्य । तेइति । महिमानम् । परि । स्त-
इतिस्तः ॥ ८ ॥

पदार्थः—(अस्मै) सभाध्यक्षाय (इत्) पादपूर्णे (ग्नाः)
वाणीः । ग्नेतिवाङ्ना० निघं० १ । ११ (चित्) अपि (देवपत्नीः)
देवैर्बिभ्रद्भिः पालनीयाः (इन्द्रायः) परमैश्वर्यप्रापकाय (अर्कम्)
दिव्यगुणसम्पन्नमर्चनाय वीरम् (अहिहत्ये) अहीनां मेघानां हत्या
यस्मिंस्तस्मिन् (ऊवुः) तन्तुवद्विस्तारयेयुः (परि) सर्वतः (द्या-
वापृथिवी) भूमिप्रकाशौ (जभ्रे) धरति (उर्वी) बहुरूपे द्यावापृ-
थिव्यौ । उर्वीति पृथिवीना० निघं० १ । १ (न) निषेधे (अस्य)
सूर्यस्य (ते) (महिमानम्) स्तुत्यस्य पूज्यस्य व्यवहारस्य भावम्
(परि) अमितः (स्तः) भवतः ॥ ८ ॥

अन्वयः—हे सभेश यथाऽयं द्यावापृथिवी जभ्रेऽस्य वशे उर्वी
वर्तते यस्यास्याहिहत्ये द्यावापृथिवीचित् भूमिप्रकाशावपि महि-
मानं न परिस्तः परिच्छेत्तुं समर्थं न भवतस्तथा यस्मा अस्मा इन्द्रा-
येदु देवपत्नीर्ना अर्कं पर्युवुः परितः सर्वतो विस्तारयन्ति स राज्यं
कर्तुं योग्यः स्यात् ॥ ८ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—यथा सूर्यस्य प्रतापमहत्त्वस्वाग्ने
पृथिव्यादीनां स्वल्पत्वं विद्यते तथैव पूर्णविद्यावतः पुरुषस्य महिम्नो-
ऽग्ने सूर्वस्य गणना तुच्छाऽस्तीति ॥ ८ ॥

पदार्थः—हे सभापति जैसे यह सूर्य (यावापृथिवी) प्रकाश और भूमि को (जग्ने) धारण करता वा जिस के वश में (उर्वी) बहुधा रूप प्रकाश युक्त पृथिवी है (अस्य) जिस इस सभाध्यक्ष के (अहिहत्ये) मेघों के हनन व्यवहार में (चित्) प्रकाश भूमि की (महिमानम्) महिमा के (न) (परिस्तः) सब प्रकार छेदन को समर्थ नहीं होसकते वैसे उस (अस्मै) इस (इन्द्राय) ऐश्वर्य प्राप्त करने वाले सभाध्यक्ष के लिये (इदु) ही (देवपत्नीः) विद्वानों से पालनीय पतिव्रता स्त्रियों के सदृश (ग्नाः) वेदवाणी (अर्कम्) दिव्यगुण सम्पन्न अर्चनीय वीर पुरुष को (पर्युतुः) सब प्रकार तंतुधों के समान विस्तृत करती है वही राज्य करने के योग्य होता है ॥ ८ ॥

भावार्थः—इस मंत्र में वाचकतु०—जैसे सूर्य के प्रताप और महत्त्व के आगे पृथिवी आदि लोकों की गणना स्वल्प है वैसे ही पूर्ण विद्या वाले पुरुष के महिमा के आगे भूर्त्स की गणना तुच्छ है ॥ ८ ॥

अथ सूर्यसभाध्यक्षो कथं भूतावित्यु० ॥

अत्र सूर्य सभाध्यक्ष कैसे है इस वि० ॥

अस्येदेव प्र रिरिचे महित्वं दिवस्पृथिव्याः
पर्यन्तरिक्षात् । स्वराडिन्द्रो दम् आ विश्वगूर्तः
स्वरिमंत्रो ववक्षे रणाय ॥ ९ ॥

अस्य । इत् । एव । प्र । रिरिचे । महित्वम् । दिवः ।
पृथिव्याः । परि । अन्तरिक्षात् । स्वरात् । इन्द्रः ।
दमे । आ । विश्वगूर्तः । सुअरिः । अमंत्रः । ववक्षे ।
रणाय ॥ ९ ॥

पदार्थः—(अस्य) सभाध्यक्षस्य सूर्यस्य वा (इत्) अपि (एव) निश्चयार्थं (प्र) प्रकृष्टार्थं (रिरिचे) रिणक्ति अधिकं वर्त्तते (महित्वन्) पूज्यत्वं महागुणविशिष्टत्वं परिमाणेनाधिकत्वं च (दिवः) प्रकाशात् (पृथिव्याः) भूमेः (परि) सर्वतः (अन्तरिक्षात्) सूक्ष्मादाकाशात् (स्वराट्) यः स्वयं राजते सः (इन्द्रः) परमैश्वर्यहेतुमान् हेतुर्वा (दमे) दाम्प्यंत्युपशाम्यंति जना यस्मिन् गृहे संसारे वा तस्मिन् (आ) आभिमुख्ये (विश्वगूर्तः) विश्वं सर्वं भोज्यं वस्तु निगलितं येन सः (स्वरिः) यः शोभनइचासाव-
रिश्च (अमत्रः) ज्ञानवान् ज्ञानहेतुर्वा (ववक्षे) वक्षति रोषं संघातं करोति (रणाय) सङ्ग्रामाय ॥ ९ ॥

अन्वयः—यो विश्वगूर्तः स्वरिरमत्रः स्वराडिन्द्रो दमे रणा-
याववक्षे यस्येऽपि दिवः पृथिव्या अन्तरिक्षात् परि महित्वं प्ररि-
चेऽस्ति रिक्तं वर्त्तते तस्यैऽस्यैव सभादिष्वधिकारः कार्य्येषूपयोगश्च
कर्त्तव्यः ॥ ९ ॥

भावार्थः—अत्र इत्यलं०—मनुष्यैर्यथा सूर्यः पृथिव्यादिभ्यो
गुणैः परिमाणेनाधिकत्वांस्त तथैवात्तमगुणं सभाद्यधिपतिं राजा-
नमधिकृत्य सर्वकार्य्यमिष्टिः कार्य्या ॥ ९ ॥

पदार्थः—जो (विश्वगूर्तः) सब भोज्य वस्तुओं को भक्षण करने (स्वरिः) उत्तम शत्रुओं वाला (अमत्रः) ज्ञानवान् वा ज्ञान का हेतु (स्वराट्) अपने आप प्रकाश महित (इन्द्रः) परमैश्वर्य युक्त सूर्य वा सभाध्यक्ष (दमे) उत्तम घर वा नगर में (रणाय) संग्राम के लिये (आववक्षे) रोष वा अच्छे प्रकार घात करता है वा जिस की (दिवः) प्रकाश (पृथिव्याः) भूमि और (अन्तरिक्षात्) अन्तरिक्ष से (इत्) भी (परि) सब प्रकार (महित्वम्) पूज्य वा महा गुण विशिष्ट महिमा (प्ररिचे) विशेष है उत (अस्य) इस सूर्य वा सभाध्यक्ष का (एव) ही कार्य्यों में उपयोग वा समा आदि में अधिकार देना चाहिये ॥ ९ ॥

भावार्थः— इस मंत्र में श्लेषालं०-मनुष्यों को जैसे सूर्य पृथिव्यादिकों से गुण वा परिमाण के द्वारा अधिक है वैसे ही उत्तम गुण युक्त सभा आदि के अधिपति राजा को अधिकार देकर सब कार्यों की सिद्धि करनी चाहिये ॥१॥

पुनस्तौ कीदृशाबित्पु० ॥

फिर वे कैसे हैं इस वि० ॥

अस्येदेव शवसा शुषन्तं वि वृश्चद्वज्रेण वृ-
त्रमिन्द्रः । गानव्राणा अवनीरमुञ्चदभि श्रवा
दावने सचेता ॥ १० ॥ २८ ॥

अस्य । इत् । एव । शवसा । शुषन्तम् । वि ।
वृश्चत् । वज्रेण । वृत्रम् । इन्द्रः । गाः । न । व्राणाः ।
अवनीः । अमुञ्चत् । अभि । श्रवः । दावने । सऽ-
चेताः ॥ १० ॥ २८ ॥

पदार्थः— (अस्य) सभाद्यध्यक्षस्य (इत्) अपि (एव)
अवधारणे (शवसा) बलेन (शुषन्तम्) द्वेषेण प्रतापेन क्षीणम्
(वि) विविधार्थे (वृश्चत्) छिनत्ति (वज्रेण) शस्त्रसमूहेन तेजो-
वेगेन वा (वृत्रम्) मेघमिव न्यायावरकं शत्रुं (इन्द्रः) सेनाधिपति-
स्तनयित्नुर्वा (गाः) पशून् (न) इव (व्राणाः) आवृताः (अवनीः)
पृथिवीं प्रति (अमुञ्चत्) मुञ्चति (अभि) आभिमुख्ये (श्रवः)
श्रवणमज्ञं वा (दावने) दात्रे (सचेताः) समानं चेतो विज्ञानं सं-
ज्ञापनं वा यस्य सः ॥ १० ॥

अन्वयः— यः सचेता इन्द्रोऽस्यैव शवसा वज्रेण शुषन्तं वृत्रं
विवृश्चद्विछिनत्ति स गा न गोपालो बन्धनोन्मोचयित्वा वनं गम-

यतीवाधनीः त्राणा दावने अरहदपि त्राणा अपो बाभ्यमुंचदाभि-
मुख्येन मुंचति स राज्यं कर्तुमर्हति ॥ १० ॥

भावार्थः— अत्र श्लेषोपमालं०—यथा विद्युत्सहायेन सूर्यः
सूर्यस्य सहायेन विद्युच्च प्रवृध्य विद्भं प्रकाश्य मेघं विच्छिद्य भूमौ
निपातयति यथा गोपालो बन्धनाद्वा विमुच्य सुखयति तथैव सभा-
सदः सेनासदश्च न्यायं संरक्ष्य शत्रुं च छिन्नं कृत्वा धार्मिकान् दुःख-
बन्धनाद्धिमोच्य सुखयेत् ॥ १० ॥

पदार्थः— जो (सचेताः) तुल्य ज्ञानवान् (इन्द्रः) सेनाधिपति (अस्य)
इस सभाध्यक्ष (एव) ही के (शवसा) बल तथा (वज्रेण) तेज से (शुषतम्)
घेष से क्षीण हुए (वृत्रम्) प्रकाश के आवरण करने वाले मेघ के समान आ-
वरण करने वाले शत्रु को (विवृश्चत्) छेदन करता है वह (गाः) पशुओं
को पशुओं के पालन वाले बंधन से छुड़ाकर वन को प्राप्त करते हुए के (न)
समान (अघनीः) पृथिवी को (त्राणाः) आवरण किये हुए जल के तुल्य
(दावने) देने वाले के लिये (अरः) अन्न को (इत्) भी (अभ्यमुंचत्)
सब प्रकार से छोड़ता है वह राज्य करने को समर्थ होता है ॥ १० ॥

भावार्थः— इस पंक्ति में श्लेष और उपमालं०—जैसे बिजुली के सहाय से
सूर्य वा सूर्य के सहाय से बिजुली बड़ के विश्व को प्रकाशित और मेघ को
छिन्न भिन्न कर भूमि में गेर देती है जैसे गौओं का पालने वाला गौओं को
बंधन से छोड़ कर सुखी करता है वैसे ही सभा सेना के अध्यक्ष मनुष्य न्याय
की रक्षा और शत्रुओं को छिन्न भिन्न और धार्मिकों को दुःखरूपी बंधनों से
छुड़ा कर सुखी करें ॥ १० ॥

पुनः स कीदृशहृत्यु० ॥

फिर वह कैसा है यह वि० ॥

अस्येदु त्वेषसां रन्त सिधवः परि यद्वज्रेण

सोमयच्छत् । ईशानकृद्दाशुषे दशस्यन्तुर्वीतये
गाधं तुर्वाणिः कः ॥११॥

अस्य । इत् । उमृइति । त्वेषसा । रन्त । सिधवः ।
परि । यत् । वज्रेण । सीम् । अयच्छत् । ईशानऽ-
कृत् । दाशुषे । दशस्यन् । तुर्वीतये । गाधम् । तुर्व-
णिः । करितिकः ॥ ११ ॥

पदार्थः—(अस्य) सभाध्यक्षस्य सूर्यस्य वा (इत्) अपि
(उ) वितर्के (त्वेषसा) विद्यान्यायबलप्रकाशेन कांत्या वा (रन्त)
रमन्ते । अत्र लुङि बहुलं छन्दसीति शपो लुक् (सिधवः) समुद्रन-
दीवत् कठिनावगाहाः शत्रवः (परि) सर्वतः (यत्) येन (वज्रेण)
शस्त्रसमूहेन छेदनाकर्षणादिगुणैः (सीम्) सेनाम् (अयच्छत्)
यच्छेत् (ईशानकृत्) ईशानानैश्वर्यवतः करोतीति (दाशुषे) दा-
नकरणशीलाय (दशस्यन्) दशति येन तद्दशस्तदिवाचरतीति ।
अत्र दश घातोरसुन् प्रत्ययः स च चित् । तत उपमानादाचारइति
क्यच् (तुर्वीतये) तुराणां शीघ्रकारिणां व्याप्तिस्तस्यै (गाधम्) वि-
लोडनम् (तुर्वणिः) यस्तुरः शीघ्रकरान् वनति संभजति सः (कः)
करोति । अयमडमावेन लुङ्प्रयोगः ॥ ११ ॥

अन्वयः—कस्य सभाध्यक्षस्य त्वेषसा सह वर्तमानाः शूरा-
स्तनयित्त्ववइव रन्त रमन्ते यद्यः सिधवइव सीं वज्रेण शत्रुसेनाः पर्य-
च्छत्सर्वतो भिगृह्णाति य ईशानकृत्तुर्वीतये दाशुषे दशस्यन् तुर्वणिः
शत्रुबलं गाधं कः करोति स सेनाध्यक्षत्वमर्हति ॥ ११ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु० यो मनुष्यो यस्य सभाध्यक्षस्य सहायेन शत्रून् विजित्य पृथिवीराज्यं संसेव्य सुखी प्रतापी भवति स सर्वेषां शत्रूणां विलोडनं कर्तुमर्हति ॥ ११ ॥

पदार्थः—(अस्य) इम सभाध्यक्ष के (त्वेषसा) विद्या न्याय बल के प्रकाश के साथ जो वर्तमान शूरवीर विजुली के समान (रन्त) रमण करते हैं (सिन्धुः) समुद्र के समान (वज्रेण) शस्त्र से (सीम्) सब प्रकार शत्रु की सेनाओं को (पर्यच्छत्) निग्रह करता है वह (दाशुषे) दानशील मनुष्य के (इशानकृत्) ऐश्वर्य युक्त करने वाला (तुर्वीतये) शीघ्र करने वालों के लिये (दशस्यन्) दशन के समान आचरण करता हुआ (तुर्वाणिः) शीघ्र करने वालों को सेवन करने वाला मनुष्य (गाधम्) शत्रुओं का विलोडने करता है ॥ ११ ॥

भावार्थः—इम मन्त्र में श्लेषाल० जो मनुष्य सभाध्यक्ष वा सूर्य के सहाय से शत्रु वा मेघादिकों को जीत कर पृथिवीराज्य का सेवन कर सुखी और प्रतापी होता है वह सब शत्रुओं के विलोडने को योग्य है ॥ ११ ॥

पुनः स कादृश इत्यु० ॥

फिर वह कैसा है यह वि० ॥

अस्मा इहु प्र भंग तूतुजानो वृत्राय वज्र-
मीशानः क्रियेधाः । गोर्न पर्व वि रदा तिरश्चे-
ष्यन्नगांस्यपां चरध्यै ॥ १२ ॥

अस्मै । इत् । उम्इति । प्र । भ्र । तूतुजानः । वृत्रा-
य । वज्रम् । ईशानः । क्रियेधाः । गोः । न । पर्व ।
वि । रद् । तिरश्चा । इष्यन् । अगांसि । अपाम् ।
चरध्यै ॥ १२ ॥

पदार्थः—(अस्मै) वक्ष्यमाणाय (इत्) आपि (उ) उक्तार्थे (प्र) प्रकृष्टतया (भर) धर (तूतुजानः) त्वरमाणः (वृत्राय) मेघायेव शत्रवे (वज्रम्) शस्त्रसमूहम् (ईशानः) ऐश्वर्यवानैश्वर्यहेतुर्वा (कियेषाः) कियतां गुणान् धरतीति (गां) वाचः (न) इव (पर्व) अङ्गमङ्गम् (वि) विंशत्यर्थे (रद्) संसन्ध (तिरश्चा) तिर्यग्गत्या (इष्यन्) जानन् (अर्णासि) जलानि (अपाम्) जलानाम् (चरध्वै) चरितुं भक्षितुं गन्तुम् ॥ १२ ॥

अन्वयः—हे सभाध्यक्ष कियेषा ईशानस्तूतुजानस्त्वं सूर्योऽपामर्णासि रचध्वै निपातयन् वृत्रायैवास्मै शत्रवे वृत्राय वज्रं प्रभर तिरश्चा वज्रेण गां वाचो विभागमिव तस्य पर्यागमंगं छेत्तुमिष्यन्निदु विरद् विविधतया हिन्धि ॥ १२ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—हे मेनेश त्वं यथा प्राणवायुना ताल्वादिषु ताडनं कृत्वा भिन्नान्यक्षराणि पदानि विभज्यन्ते तथैव शत्रोर्बलं छिन्नं भिन्नं कृत्वांगानि विभक्तानि कृत्वैवं विजयस्व ॥ १२ ॥

पदार्थः—हे सभाध्यक्ष (कियेषाः) कितने गुणों को धारण करने वाला (ईशानः) ऐश्वर्य युक्त (तूतुजानः) शीघ्र करने वाले आप जैसे सूर्य (अपाम्) जलों के सम्बन्ध में (अर्णासि) जलों के प्रवाहों को (चरध्वै) बहाने के अर्थ (वृत्राय) मेघ के वास्ते वर्तना है जैसे (अस्मै) इस शत्रु के वास्ते शस्त्र को (प्र) अच्छे प्रकार (भर) धारण कर (तिरश्चा) ढेढ़ी गाते वाले वज्र से (गां) वाणियों के विभाग के समान (पर्व) उस के अंग २ को काटने को (इष्यन्) इच्छा करता हुआ (इदु) ऐसे ही (विरद्) अनेक प्रकार इनन कीजिये ॥ १२ ॥

भावार्थः—इस मंत्र में वाचकलु०—हे मेनापते आप जैसे प्राण वायु से तालु आदि स्थानों में जोष का ताडन कर भिन्न २ अक्षर वा पदों के विभाग प्रसिद्ध होते हैं वैसे ही सभाध्यक्ष शत्रु के बल को छिन्न भिन्न और अङ्गों को विभाग युक्त कर के इसी प्रकार शत्रुओं को जीता करे ॥ १२ ॥

पुनः स सभाध्यक्षः किं कुर्यादित्यु० ॥

फिर वह सभाध्य क्या करे इस वि० ॥

अस्येदु प्र ब्रूहि पूर्व्याणि तुरस्य कर्माणि
नव्य उक्थैः । युधे यदिष्णान आयुधान्यघ्राय-
माणो निरिणाति शत्रून् ॥ १३ ॥

अस्य । इत् । कुम्इति । प्र । ब्रूहि । पूर्व्याणि ।
तुरस्य । कर्माणि । नव्यः । उक्थैः । युधे । यत् ।
इष्णानः । आयुधानि । ऋघ्रायमाणाः । निरिणाति ।
शत्रून् ॥ १३ ॥

पदार्थः—(अस्य) सभाध्यक्षस्य (इत्) अपि (उ) आ-
कांक्षायाम् (प्र) प्रत्यक्षे (ब्रूहि) कथय (पूर्व्याणि) पूर्वैः कृतानि
(तुरस्य) त्वरमाणस्य (कर्माणि) कर्तुं योग्यानि कर्तुरीप्सिततमा-
नि (नव्यः) नवान्येषु नव्यानि नूतनानि (उक्थैः) वक्तुं योग्यैः व-
चनैः (युधे) युध्यन्ति यस्मिन् संग्रामे तस्मै (यत्) यः (इष्णानः)
अभीक्ष्णं निष्पादयन् शोधयन् (आयुधानि) शतघ्नीभुशुंखस्या-
दीनि शस्त्राणि, आग्नेयादीन्यस्त्राणि वा (ऋघ्रायमाणः) ऋघो हिं-
सितहवाचरति । अत्र रदघातोर्बाहुत्तकादौणादिकोऽन् प्रत्ययः संग्र-
सारणं च तत् आचारे कथञ्च (निरिणाति) नित्यं हिनस्ति (शत्रून्)
वैरिणो दुष्टान् ॥ १३ ॥

अन्वयः—हे विद्वन् यद्यः सभाध्यक्षो यथर्थायमाद्य आयुधा-
नीष्णानोनव्यो युधे शत्रून् निरिणाति तस्य तुरस्येदुक्थैः पूर्व्याणि
नव्यानि च कर्माणि करोति तथा त्वं प्रब्रूहि ॥ १३ ॥

भावार्थः—अथ वाचकलु०-मनुष्यैः सभाध्यक्ष्यादीनां विद्या-
विनयशत्रुपराजयकरणादीनि कर्माणि प्रशंस्योत्साह्येते सदा सत्क-
र्तव्याः । एतैराजपुरुषैः सस्त्रास्त्रशिक्षाशिल्पकुशलान् सेनास्थान्
वीरान् संगृह्य शत्रून् पराजित्य प्रजाः सनतं संरक्ष्याः ॥ १३ ॥

पदार्थः—हे विद्वन् मनुष्य (यत्) जो समा आदि कां पति जैसे (श्र-
ध्वयमायः) मरे हुए के समान आचरण करने वाले (आयुधानि) तोप, ब-
न्दूक, तलवार आदि शस्त्र अस्त्रों को (इच्छानः) नित्य २ सम्हालते और
शोधते हुए (नव्यः) नवीन शस्त्रास्त्र विद्या को पढ़े हुए आप (युधे) संग्र-
म में (शत्रून्) दुष्ट शत्रुओं को (निरिणाति) मारते हो उस (तुरस्य) शी-
घ्रता युक्त (अस्य) सभापति आदि के (इत्) ही (उक्तैः) कहने योग्य
वचनों से (पूर्व्याणि) प्राचीन सत्पुरुषों ने किये (कर्माणि) करने योग्य और
करने वाले को अत्यन्त इष्ट कर्मों को करता है वैसे (प्रब्रूहि) अच्छे प्रकार
कहो ॥ १३ ॥

भावार्थः—मनुष्यों को चाहिये कि सभाध्यक्ष आदि के विद्या, विनय,
न्याय और शत्रुओं को जीतना आदि कर्मों की प्रशंसा करके और उत्साह दे
कर इन का सदा सत्कार करे । तथा इन सभाध्यक्ष आदि राज पुरुषों से श-
स्त्रास्त्र चलाने की शिक्षा और शिल्प विद्या की चतुर्गई को प्राप्त हुए सेना
में रहने वाले वीर पुरुषों के साथ शत्रुओं को जीत कर प्रजा की निरन्तर र-
क्षा करें ॥ १३ ॥

पुनः स कीदृश इत्यु० ॥

फिर वह कैसा हो यह वि० ॥

अस्येदु भिया गिर्यश्च दृढा द्यावा च भू-
मा जनुषस्तुजेते । उपो वेनस्य जोगुवान ओ-
णि सुधो भुवद्दीर्याय नोधाः ॥ १४ ॥

अस्य । इत् । ऊम्ऽइति । भिया । गिर्यः । च । दृ-
ढाः । द्यावा । च । भूम । जनुषः । तुजेतेइति । उपोइ-

ति । वेनस्य । जोगुवानः । ओणिम् । सद्यः । भुवत् ।
वीर्याय । नोधाः ॥ १४ ॥

पदार्थः—(अस्य) सभाध्यक्षस्य (इत्) (उ) पादपूर्णाधी
(भिया) भयेन (गिरयः) मेघाः । गिरिरिति मेघना० निघं० १ ।
१० (च) शत्रूणां समुच्चये (दृढाः) स्थिराः कृताः (द्यावा) द्यौ
प्रकाशः । अत्र सुपांसुत्तुगित्याकारादेशः (च) समुच्चये (भूम) भ-
वेम (जनुषः) जनाः (तुजेत) हिंस्तः (उपो) समीपे (वेनस्य) मे-
धाविनः । वेनइति मेधाविना० निघं० ३ । १५ (जोगुवानः) पुनः
पुनरव्यक्तशब्दं कुवेन् (ओणिम्) दुःस्वान्धकारस्यापनयनम् (सद्यः)
शीघ्रम् (भुवत्) भवति (वीर्याय) पराक्रमसंपादनाय (नोधाः)
नायकान् प्राप्तिकरान् धरन्तीति अत्र शीघ्रधातोर्वाहुलकादौष्णादिको
डो प्रत्ययस्तदुपपदाद्भुधाद्भुधातोश्च क्विप् ॥ १४ ॥

अन्वयः—यो जोगुवानो नोधाः सभाध्यक्षः सद्यो वीर्याय
भुवद्यथा सूर्याद्दृढा गिरयो मेघाद्दृढाऽस्य वेनस्येदु भिया च शत्रवः
कंपन्ते यथा द्यावा च तुजेतेहव जनुषो भयं प्राप्नुवन्ति नोपो भूम
स ओणिमामोति ॥ १४ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—न किल विश्वादि सदगुणैरीदृश-
रेण जगदुत्पादितेन विना सभाध्यक्षादयः प्रजाः पालयितुं यथा
सूर्यः सर्वाल्लोकान् प्रकाशयितुं भर्तुं च शक्नोति तस्माद्विश्वायु-
त्तमगुणग्रहणं परेशस्तवनं च कार्यम् ॥ १४ ॥

पदार्थः—जो (जोगुवानः) अव्यक्त शब्द करने (नोधाः) सेना का नायक
सभा आदि का अध्यक्ष (सद्यः) शीघ्र (वीर्याय) पराक्रम के सिद्ध करने के लिये
(भुवत्) हो जैसे सूर्य से (दृढाः) पुष्ट (गिरयः) मेघके समान (अस्य) इस (वेनस्य)
मेधावी के (इत्) (उ) ही (भिया) भयसे (च) शत्रुजन कंपायमान होते हैं जैसे

(धावा) प्रकाश (च) और भूमि (तुजेते) कांपते हैं वैसे (जनुषः) मनुष्य लोग भय को प्राप्त होते हैं वैसे हमलोग उम सभाध्यक्ष के (उपो) निकट भय को प्राप्त न (भूम) हों और वह सभाध्यक्ष भी (ओणिम्) दुःख को दूरकर सुख को प्राप्त होता है ॥ १४ ॥

भावार्थः— इस मंत्र में वाचक०— वह सब को निश्चय समझना चाहिये कि विद्या आदि उत्तम गुण तथा ईश्वर से जगत् के उत्पन्न होने बिना सभाध्यक्ष आदि मजा का पालन करने और जैसे सूर्य सब लोकों को प्रकाशित तथा धारण करने को समर्थ नहीं होसकता । इस लिये विद्याआदि श्रेष्ठगुणों और परमेश्वर ही की प्रशंसा और स्तुति करना उचित है ॥ १४ ॥

पुनः सभाध्यक्षविद्युतौ कीदृशावित्यु० ॥

फिर उक्त सभाध्यक्ष और विद्युत् कैसे हैं इसवि० ॥

अस्माद्दु त्यदनुं दाय्येषामेको यद्वबने भूरे-
रीशानः । प्रेतशं सूर्ये पस्पृधानं सौवश्व्ये
सुष्विमावदिन्द्रः ॥ १५ ॥

अस्मै । इत् । ऊम्ऽइति । त्यत् । अनुं । दायि ।
एषाम् । एकः । यत् । वबने । भूरेः । ईशानः । प्र ।
एतशम् । सूर्ये । पस्पृधानम् । सौवश्व्ये । सुष्विम् ।
आवत् । इन्द्रः ॥ १५ ॥

पदार्थः—(अस्मै) उक्ताय (इत्) अपि (उ) वितर्क (त्यत्)
तम् (अनु) पश्चात् (दायि) दीयते (एषाम्) मनुष्याणां लो-
कानां वा (एकः) अनुत्तमोऽसहायः (यत्) यम् (वबने) याचते
(भूरेः) बहुविधस्यैश्वर्यस्य (ईशानः) अधिपतिः (प्र) प्रकृष्टे
(एतशम्) अश्वम् । एतशइत्यश्वाना० निघं० १ । १४ (सूर्ये)
सवितृप्रकाशे (पस्पृधानम्) पुनः पुनः स्पर्द्धमानम् (सौवश्व्ये)
शोभना अश्वस्तुरङ्गा विद्यन्ते यास्तु सेनास्तु ते स्वशवास्तेषां भावे

(सुष्विम्) शोभनेश्वर्यप्रदम् (आचत्) रचेत् (इन्द्रः) सभा-
ध्यक्षः ॥ १५ ॥

अन्वयः-यथा विश्वद्विरेषां सुखं दायि तथा च एको भूरी-
शान् इन्द्रः सूर्येइव यथा सौवश्ये पस्पृधानं सुष्विमेतशमनुषवे
याचते त्यत्तमस्मा इदु सभाध्यक्षाय प्रावत् ससभामर्हति ॥ १५ ॥

भावार्थः-अत्र वाचकलु०-मनुष्यैर्यो बहुसुखदाताऽश्ववि-
द्याविदनुपमपुरुषार्थी विद्वान् मनुष्योऽस्ति सएव रक्षयं नियोजनी-
यः । विश्वद्विद्या च संग्राह्या ॥ १५ ॥

पदार्थः-जैसे विद्वानों ने (एषाम्) इन मनुष्यादि प्राणियों को सुख
(दायि) दिया हो वैसे जो (एकः) उत्तम से उत्तम सहाय रहित (भूरेः)
अनेक प्रकार के ऐश्वर्य का (ईशानः) स्वामी (इन्द्रः) सभा आदि का पति
(सूर्ये) सूर्य मंडल में है वैसे (सौवश्ये) उत्तम २ घोड़े से युक्त सेना में
(यत्) जिस (पस्पृधानम्) परस्पर स्पर्धा करते हुए (सुष्विम्) उत्तम ऐश्व-
र्य के देने वाले (एतशम्) घोड़े की (अनुवन्ने) यथा योग्य याचना करता
है (त्यत्) उस को (अस्मै) इस (इदु) सभाध्यक्ष ही के लिये (प्रावत्)
अच्छे प्रकार रक्षा करता है वह सभा के योग्य होता है ॥ १५ ॥

भावार्थः-इस मन्त्र में वाचकलु०-मनुष्यों को उचित है कि जो बहुत
सुख देने तथा घोड़ों की विद्या को जानने वाला और उपमा रहित पुरुषार्थी
विद्वान् मनुष्य है उसी को प्रजा की रक्षा करने में नियुक्त करें और विजुलों
की विद्या का ग्रहण भी अवश्य करें ॥ १५ ॥

पुनः स कीदृशाहत्यु० ॥

फिर वह सभाध्यक्ष कैसा हो इस वि० ॥

एवा तै हरियोजना सुवृत्तीन्द्र ब्रह्माणि गो-
तमासो अक्रन् । एषु विश्वपेशसु धियं धाः प्र-
तर्मशु धियावसुर्जगम्यात् ॥ १६ ॥ २९ ॥

एव । ते । हारियोजन । सुवृक्ति । इन्द्र । ब्रह्मा-
णि । गोतमासः । अक्रन् । आ । एषु । विश्वपे-
शसम् । धियम् । धाः । प्रातः । मक्षु । धियावसुः ।
जगम्यात् ॥ १६ ॥ २९ ॥

पदार्थः— (एव) अवधारणार्थे (ते) तुभ्यम् (हारियोजन)
यो हरीन् तुरंगानग्यादीन् वा घुनक्ति सएव तत्सम्बुद्धौ (सुवृक्ति)
सुष्ठु वृक्त्या वर्जिता दोषा येभ्यस्तानि (इन्द्र) परमैश्वर्यप्रापक
(ब्रह्माणि) बृहत्सुखकारकाण्यन्नानि (गोतमासः) गच्छन्ति स्तु-
वन्ति सर्वाविद्यास्तेऽतिशयिताः । गौरिति स्तोत्रना० निर्घ० ३ । १६
(अक्रन्) कुर्युः (आ) समन्तात् (एषु) स्तोत्रेषु (विश्वपेशसम्)
विश्वानि सर्वाणि पेशांसि रूपाणि यस्यां ताम् (धियम्) धारणा-
वर्णां प्रज्ञाम् (धाः) धर (प्रातः) प्रतिदिनम् (मक्षु) शीघ्रम् (धि-
यावसुः) यः प्रज्ञाकर्मभ्यां सह वसति सः (जगम्यात्) भृशं प्राप्नु-
यात् ॥ १६ ॥

अन्वयः— हे हारियोजन इन्द्र सभाध्यक्ष धियावसुर्भवान् य-
ेषु विद्याऽध्यतृषु जनेषु विश्वपेशसं धियं प्रातर्मक्ष्वाधास्तार्हि सर्वा
विद्या जगम्यात्प्राप्नुतात् । ये गोतमासस्तोतारस्ते तुभ्यमेव सुवृक्ति
सुष्ठुवर्जितदोषाण्यभिसंस्कृतानि ब्रह्माणि बृहत्सुखकारकाण्यन्नान्य-
कस्तान्सुसेवताम् ॥ १६ ॥

भावार्थः— परोपकारिभिर्बिद्भिर्नित्यं प्रयत्नेन सुशिक्षावि-
द्यादानाभ्यां सर्वे मनुष्याः सुशिक्षिता विद्वांसः संपादनीयाः । एते
साध्यापकान् विदुषो मनोवाक्कर्मभिः सत्कृत्य सुसंस्कृतरैजादिभि-
नित्यं सेवन्ताम् । नहि काञ्चिदपि विद्यादानग्रहणाभ्यामुत्तमो धर्मोऽ-
स्ति तस्मात्सर्वैः परस्परं प्रीत्या विद्योन्नतिः सदा कार्या ॥ १६ ॥

अस्मिन्सूक्ते सभाध्यक्षाग्निविद्याप्रचारकरणाद्युक्तमत एत-
दर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह संगतिरस्तीत्यवगन्तव्यम् ॥

इति चतुर्थोऽध्यायएकषष्टितमं सूक्तमेकोनविंशं वर्गश्च समाप्तः ॥

पदार्थः—हे (शारियोजन) यानों में घोड़े वा अग्नि आदि पदार्थ युक्त होने वालों को पढ़ने वा जानन वाले (इन्द्र) परम ऐश्वर्य के प्राप्त कराने वाले (धियावसुः) बुद्धि और कर्म के निवास कराने वाले आप जो (एषु) इन स्तुति तथा विद्या पढ़ने वाले मनुष्यों में (विश्वेशसद्) सब विद्यारूप गुण युक्त (धियम्) धारणा वाली बुद्धि को (प्रातः) प्रति दिन (मनु) शीघ्र (आथाः) अच्छे प्रकार धारण करने हो तो जिन को ये सब विद्या (जग-म्यात्) बार-बार प्राप्त होवें (गोतमासः) अत्यन्त सब विद्याओं की स्तुति करने वाले (ते) आप के लिये (एव) ही (मवृक्ति) अच्छे प्रकार ढाँचा को अलग करने वाले शुद्धि किये हुए (ब्रह्माणि) बड़े-सुख करने वाले अर्थात् को देने के लिये (अक्रन्) संपादन करते हैं उन की अच्छे प्रकार सेवा कीजिये ॥ १६ ॥

भावार्थः—परोपकारी विद्वानों को उचित है कि नित्य प्रयत्न पूर्वक अच्छी शिक्षा और विद्या के दान से सब मनुष्यों को अच्छी शिक्षा से युक्त विद्वान् करें । तथा इन मनुष्यों को भी चाहिये कि पढ़ाने वाले विद्वानों को अपने निष्कपट मन, वाणी और कर्मों से प्रमत्त करके ठीकर पकाए हुए अन्न आदि पदार्थों से नित्य सेवा करें क्योंकि पढ़ाने और पढ़ाने से पृथक् दूसरा कोई उत्तम धर्म नहीं है इस लिये सब मनुष्यों को परस्पर प्रीति पूर्वक विद्या की वृद्धि करनी चाहिये ॥ १६ ॥

इस सूक्त में सभाध्यन्त आदि का वर्णन और अग्नि विद्या का प्रचार करना आदि कहा है इस से इस सूक्तार्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ सङ्गति सम्भनी चाहिये ॥

यह उनतीशवाँ वर्ग २९ चौथा अध्याय ४ इकसठवाँ ६१ सूक्त समाप्त हुआ

इति श्रीयुतपरिव्राजकाचार्येण श्रीयुतमहाविदुषां विरजा-

नन्दसरस्वतीस्वामिनां शिष्येण दयानन्दसरस्वती-

स्वामिना विरचिते संस्कृतार्यभाषाभ्यां विश्व-

विते सुप्रमाणयुक्ते ऋग्वेदभाष्ये चतुर्थोऽ-

ध्यायः समाप्तिमगात् ॥

